



Assorted Cookies

Vol. IX Issue-II, April 2021



दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा ७ अप्रैल २०२१ को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रातः १० बजे तरंग माध्यम द्वारा आयोजित किया गया। सर्वप्रथम विभाग की निदेशक डॉ माया इंगले द्वारा उपस्थित निर्णायक डॉ निशा सिद्धिकी एवं श्रीमति प्रिया चितले, सभी शिक्षकगण तथा विद्यार्थियों का मौखिक रूप से स्वागत किया गया। "सभी इंसान सुखी रहे, रोग मुक्त रहे, मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने रहे और किसी को दुःख का सामना न करना पड़े" ऐसी सभी उपस्थितों हेतु कामना की गयी। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय - "एक निष्पक्ष तथा स्वस्थ दुनिया का निर्माण- संभावनाएँ तथा चुनौतियाँ" था। इस विषय पर विभिन्न कक्षाओं के १८ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अपने वक्तव्य में प्रतिभागियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया :-



अशमीत कौर

B.Voc. (ND) II sem

जीवन शैली में सुधार कर बौद्धिक क्षमता हासिल करे तथा आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों से बचा सके।

देवांशी दिक्षित

B.Voc. (ND) II sem

स्वास्थ्य दुनिया की सबसे कीमती दौलत है जिसे सारी दुनिया की दौलत मिला कर भी खरीदा नहीं जा सकता।



रितिका गुप्ता

B.Voc. (ND) II sem

विश्व के अनेक पिछड़े हुए देश जहाँ लाखों करोड़ों लोग स्वास्थ्य कमजोरी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगो हेतु प्राथमिक रूप से उपचार तथा समाधान का कार्यान्वयन होना चाहिए।

सादिया शेख

B.Voc. (ND) II sem

स्वास्थ्य ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया अधिक पैसे, संपत्ति के बिना चल सकती है परन्तु स्वस्थ जीवन बिना नहीं।

अंकित सलुजा

B.Voc. (ND) II sem

स्वस्थ दुनिया हेतु हर इंसान ने जीवन में अनुशासन में रहना जिससे कोई मुकाम हासिल कर सके तथा संकल्प जिससे चुनौतियों का सामना तथा आगे बढ़ने की ताकत मिल सके।



सलोनी आज़ाद

B.Voc. (ND) II sem

दुनिया के हर एक इंसान को पौष्टिक आहार मिले। शिक्षा एवं सफाई की सुविधाएं प्रदान कर कुपोषण से बचाये।

आकांक्षा नानेरिया

B.Voc. (ND) II sem

अच्छा स्वास्थ्य याने मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता।

समीना चकेरा

B.Voc. (ND) II sem

"जान है तो जहान है"। मानव जीवन के अच्छे स्वास्थ्य हेतु नयी तथा पुरानी चिकित्सा पद्धतिया कवच प्रदान करती है।

